

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ९१] नई दिल्ली, शनिवार, मई २०, १९६७/वशाख ३०, १८८९

No. 91] NE V DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1967/VAISAKHA 30, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 20th May 1967

G.S.R. 754.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto, when imported into India, from so much of the additional duty leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as specified in column (3) of the said Table.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 21st day of September, 1966.

TABLE

I. No.	Name of article	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Lubricating oils	Rs. 116·10 per metric tonne.
2.	Mineral greases	Rs. 116·10 per metric tonne.

[No. 60/F. No. 15/7/67-Cus. I.]

D. P. ANAND, Addl. Secy.